



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

8 श्रावण, 1940 (श०)

संख्या- 734 राँची, सोमवार,

30 जुलाई, 2018 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

25 जुलाई, 2018

संख्या-5/आरोप-1-198/2017-1070 (HRMS)-- श्री सुबोध कुमार, झा०प्र०से० (तृतीय बैच, गृह जिला-हजारीबाग), कार्यपालक दण्डाधिकारी, चतरा के विरुद्ध उपायुक्त, चतरा के पत्रांक-300/स्था०, दिनांक 10 मई, 2018 द्वारा प्रपत्र- 'क' में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया है, जिसमें आरोप प्रतिवेदित है कि श्री कुमार दिनांक 6 सितम्बर, 2017 से लगातार अनधिकृत रूप से बिना सूचना के अपने कर्तव्य से अनुपस्थित हैं। उपायुक्त, चतरा द्वारा प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से श्री कुमार को दिनांक 7 फरवरी, 2018 तक उपस्थित होने एवं अपने कर्तव्य का निर्वहन करने का निदेश दिया गया, परन्तु श्री कुमार अपने कर्तव्य से अनुपस्थित हैं।

2. उक्त आरोपों के लिए श्री कुमार को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9(1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

3. निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग निर्धारित किया जाता है। जहाँ वे प्रतिदिन बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली के अन्तर्गत उपस्थिति दर्ज करेंगे तथा उपस्थिति के आधार पर ही इन्हें झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-10 के तहत जीवन निर्वाहभत्ता देय होगा।

Sl. No.	Employee Name (G.P.F. No.)	Decision of the Competent Authority	Effective Date
1	2	3	4
1	SUBODH KUMAR (110081163092)	श्री सुबोध कुमार, झा०प्र०से० (तृतीय बैच, गृह जिला-हजारीबाग), कार्यपालक दण्डाधिकारी, चतरा को निलंबित किया जाता है।	24/07/2018

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सतीश कुमार जायसवाल,

सरकार के उप सचिव।

जीपीएफ संख्या: ROH/RVP/1007
